



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

आजादी का
अमृत महोत्सव

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं/No. AAM/RTI/GM(Ops)/DIRCA/R/T/24/00042/2024-25/

दिनांक/Dated: 08/11/2024

SH IRFAN
CHENNAI

विषय: श्री इरफान (DIRCA/R/T/24/00042) के ऑनलाइन आर.टी.आई आवेदन का उत्तर-बाबत।
Sub: Reply to online RTI Application of SH IRFAN (DIRCA/R/T/24/00042)- Reg.

महोदय/Sir,

आपके ऑनलाइन आर.टी.आई आवेदन दिनांक 24/10/2024 के संदर्भ में, भा.वि.प्रा.चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संबंधित उपचारित पी.आई.ओ से प्राप्त जानकारी संलग्न है और तदनुसार, आर.टी.आई अनुरोध दिनांक 24/10/2024 को एतद्वारा निपटाया गया माना जाता है।

With reference to your online RTI Application dated 24/10/2024, the information sought received from the treated PIO pertaining to AAI Chennai Airport is enclosed and accordingly, the RTI Request dated 24/10/2024 is hereby treated as disposed off.

2. यदि आप जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप इस उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफ.ए.ए) के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिसका नाम और पता नीचे दिया गया है // In case, you are not satisfied with the information, you may file an appeal before the First Appellate Authority (FAA) as per Section 19(1) of the RTI Act, 2005 within 30 days from the receipt of this reply, whose name and address are given below:

श्री सी वी दीपक/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/SH C V Deepak, Airport Director/First Appellate Authority
भा.वि.प्रा.प्रचालन कार्यालय,चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा/AAI, Operational Offices, Chennai Airport
मीनम्बबाक्कम, चेन्नई/Meenambakkam, Chennai - 600 016
(दूरभाष/Phone: 044 - 22561122) ईमेल/Email: apdchennai@aai.aero

संलग्न/Encl: यथोपरि/As Above (01 पृष्ठ/Page)

भवदीय / Yours faithfully

के.के. शोभी / K. K. SHOBHY
महाप्रबंधक (प्रचालन)/ General Manager (Ops)/
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी-आर. टी. आई. / CPIO-RTI,
चेन्नई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट/Chennai International Airport

फैक्स : 044 - 2256 0008 इ पी ए बी एक्स : 2256 0551, चेन्नै एयरपोर्ट, चेन्नै - 600 027.

FAX : 044 - 2256 0008 EPABX : 2256 0551, Chennai Airport, Chennai - 600 027.



Airports Authority of India

Chennai Airport: Chennai – 600 016

Department of Commercial

AAM/C.RTI/2024/1372

06.11.2024

NOTE

Sub: Information requested under the RTI Act 2005 - Application of **Sh.Irfan**

Please refer to the following RTI Queries raised by **Sh.Irfan**, dated 24.10.2024, seeking information under RTI Act 2005 about the details related to MLCP at Chennai Airport.

The reply for the same are furnished below:

Sr No	Query	Information
1.	The total cost of the premium paid by the vendor who has leased the parking facilities at Chennai Airport.	Rs.37,75,64,134/- (excl. GST) towards license fee paid to AAI from FY 2023-24.
2.	The capacity at which fines are being levied by the parking vendor.	As per the contract executed between AAI and parking licensee, it is the responsibility of the parking licensee to ensure that no vehicles are parked in the no-parking area of the airport zone and impose penalty for such violations.
3.	The rationale behind designating the passenger drop zone as a complete no parking zone.	The designated area for parking at Chennai Airport is in MLCP building only. Other areas on the city side of airport including kerb area in front of terminal buildings are no Parking zones.
4.	The share of the Airports Authority of India (AAI) in the fines collected by the parking vendor, and total fine collected so far.	a) Share of AAI in the fines collected by the parking vendor : 20% b) Total fine collected so far : Rs. 2,18,23,338/- (from 04.12.2022 to 30.09.2024)
5.	If there is a complaint number available for reporting the unruly behaviour of the parking vendors staff.	Passengers can lodge grievances/complaints with Public Grievance Officer (PGO) of AAI Chennai Airport. Details for reaching out to PGO are available in Airport terminals/AAI Chennai Airport website.
6.	The total number of complaints received by AAI regarding the parking vendor and the actions taken in response to these complaints.	a) Total number of complaints received by AAI regarding parking vendor: 405 (From 04.12.2022 to 31.10.2024) b) Action taken in response to complaints : Complaints are addressed/shared with the parking license from time to time for resolution.

K. Renuka Devi
06/11/2024
(के रेणुका देवी / K Renuka Devi)
Jt. General Manager (Comml)
संयुक्त महाप्रबंधक (वाणिज्य)